

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**दिसम्बर, 2012 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 13, 1934)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री विलासराव देशमुख, केन्द्रीय मंत्री,
- (2) श्री इन्द्र कुमार गुजराल, भूतपूर्व प्रधान मंत्री,
- (3) श्री काशीराम राणा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (4) श्री किन्जरपू येरननायडू, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (5) श्री के.सी. पंत, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (6) श्री कन्हैयालाल यादव, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, विधान सभा,
- (7) श्री फूलचंद वर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (8) श्री रामपाल सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री ताराचन्द साहू, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) डॉ. राकेश कुमार सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (11) श्री के.सी. सुदर्शन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सर संघचालक,
- (12) श्री बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना प्रमुख, तथा
- (13) डॉ. वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक.

## 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार —

- (1) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012),
- (2) सांची बौद्ध तथा भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012),
- (3) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012); तथा
- (4) मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)

पटल पर रखेंगे.

## 4. जुलाई, 2012 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 5. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2012 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

## 6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

## 7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल के साईं बाबा नगर स्थित पानी की टंकी धराशाही होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से कृषको को क्षति होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 8. सभापति तालिका की घोषणा.

**भोपाल :**

**दिनांक : 03 दिसम्बर, 2012**

**राजकुमार पांडे**

**प्रमुख सचिव,**

**मध्यप्रदेश विधान सभा.**